


## वी.यू. अंतर्गत वृहद 7 वाँ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस-2021 का सफल आयोजन



जबलपुर। आज 21.06.2021 को नानाजी देशमुख पशुचिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, के अंतर्गत सभी 3 पशुचिकित्सा एवं पशुपालन महाविद्यालय, जबलपुर, महु एवं रीवा, मत्स्य विज्ञान महाविद्यालय, जबलपुर तथा 5 पशुचिकित्सा पत्रोपाधि महाविद्यालय, महु, रीवा भोपाल एवं मुरैना में वंचुअल (ऑनलाइन) संचार माध्यम द्वारा युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशानुसार व महामहिम कुलाधिपति, राज्यपाल माननीया श्रीमति आनन्दी बेन पटेल जी की अभिप्रेरणा से एवं माननीय डॉ. सीता प्रसाद तिवारी, कुलपति जी, ना.दे.प.चि.वि.वि., जबलपुर के मार्गदर्शन में दिनांक: 21.06.2021 को 7 वाँ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर माननीय कुलपति, डॉ. सीता प्रसाद तिवारी जी ने अपने उद्धार व्यक्त करते हुये 7 वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की महत्ती आवश्यकता पर प्रकाश डाला, साथ ही आपने योग को स्वस्थ्य मानव हेतु इसे नियमित योगाभ्यास के रूप में आत्मसात करने पर जोर दिया और इसकी उपयोगिता वर्तमान दौर में व्याप्त वैश्विक महामारी कोविड-19 में जो कि निःशुल्क व्यायाम है, जिससे कोरोना संक्रमण को भी आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। 7 वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सभी को अपनी हार्दिक शुभकामनायें प्रेषित की है। योग प्रशिक्षकों ने विभिन्न विधाओं अनुलोम-विलोम, कपाल भारती, मुद्रासन, वज्रासन, स्वस्तिकासन, इत्यादि के योगाभ्यास करवाये एवं योगासनों से होने वाले लाभों से अवगत कराया। इस योग कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के अधिष्ठाता संकाय, डॉ.



आर.पी.एस. बघेल, कुलसचिव, डॉ. श्रीकांत जोशी, अधिष्ठातागण डॉ. राजेश शर्मा, डॉ. एम.के. मेहता, डॉ. सत्येंद्र सिंह तोमर, संचालकगण डॉ. मधु स्वामी, डॉ. सुनील नायक, डॉ. शोभा जावरे, डॉ. अनिल कुमार गौर, डॉ. जी. दास, प्रशासनिक अधिकारियों, प्राध्यापकों, कर्मचारियों एवं छात्र-छात्राओं की सक्रिय गरिमामयी उपस्थिति उल्लेखनीय रही। कार्यक्रम का संचालन डॉ. आदित्य मिश्रा, अधिष्ठाता छात्र कल्याण एवं आभार प्रदर्शन डॉ. राजेश शर्मा, अधिष्ठाता, पशु चिकित्सा एवं पशुपालन महाविद्यालय, जबलपुर ने किया।

सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी  
ना.दे.प.चि.वि.वि., जबलपुर (म.प्र.)